



# संचार सेवाएँ

DLG e.V., Eschborner Landstr. 122, 60489 Frankfurt/Main,  
Tel: 069/24788-226, Fax: -112; E-Mail: p.schucht@DLG.org, URL: www.dlg.org

---

फ्रैंकफर्ट ऐम माइन  
नवंबर 2017

## अनुगा फूड टेक् 2018 संसाधन दक्षता पर केंद्रित ।

प्रमुख विषय पर उद्घाटन सम्मेलन - विशेष फ़ोरम्स एवं निर्देशित टूर वर्तमान खाद्य प्रौद्योगिकी पर सूचनाप्रद और संक्षिप्त विवरण देंगे ।

(डीऐलजी) अनुगा फूड टेक् 2018 में आनेवाले आगंतुकों को 'संसाधन दक्षता' पर केंद्रित एक विस्तृत कार्यक्रम की अपेक्षा है। खाद्य और पेय उद्योग पर केंद्रित दुनियाभर में प्रमुख यह व्यापार मेला दिनांक 20 से 23 मार्च तक कोलोन में होगा । DLG (जर्मन कृषि संघठन) द्वारा नियोजित इमदादी कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को उत्पादन प्रक्रिया को उपयुक्त बनाने के कई अवसर देंगे, जिस से कम ऊर्जा और पानी का इस्तेमाल होकर खाद्य उत्पादन में न्यूनतम घाटा हो। प्रमुख विषय से बढ़ कर, फ़ोरम्स कई खाद्य उत्पादन के वर्तमान विषयों पर जानकारी देंगे और वैज्ञानिक निष्कर्षों और उद्यमी प्रयोग का संयोग करेंगे। अनुगा फूड टेक् के दर्शकों को "निर्देशित टूर" के दौरान महत्वपूर्ण नवाचारों के बारे में संक्षिप्त एवं सूचनाप्रद विवरण प्राप्त होगा।

संसाधन दक्षता के महत्व को ध्यान में रखते हुए अनुगा फूड टेक् 2018 में तकनीकी कार्यक्रम "संसाधन दक्षता" पर केंद्रित होंगे। दुनिया भर में उपादान एवं ऊर्जा वाहकों की बढ़ती मांग और बढ़ती शहरीकरण हमें अपने वर्तमान कार्यों और अर्थव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सावधानीपूर्वक इस्तेमाल और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग टिकाऊ समाज की कुंजी है। इस पृष्ठभूमि में अनुगा फूड टेक् 2018 में "संसाधन दक्षता" के विषय को विशेष रूप से संबोधित किया जाएगा। अनुगा फूड टेक् मेला जल और ऊर्जा का अल्पतर इस्तेमाल और खाद्य उत्पादन में घाटा कम करते हुए प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाने हेतु विभिन्न समाधान प्रदान करेगा ।

### उद्घाटन सम्मेलन

अनुगा फूड टेक् 2018 का मुख्य आकर्षण मार्च 20, 2018 को होनेवाला उद्घाटन सम्मेलन "संसाधन दक्षता - चुनौतियां और अवसर" है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित विशेषज्ञ इस विषय के प्रासंगिक पहलुओं पर जानकारी देंगे । इसमें सामग्रियों, ऊर्जा, जनशक्ति और पूंजी के उपयोग को अनुकूलित करने, अधिक स्थिरता, पर्यावरणीय प्रभाव कम और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में बचत,

संसाधनों का बेहतरीन उपयोग एवं मूल्य श्रृंखला को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक डिजाइन करना शामिल है ।

### **फोरम के कार्यक्रम**

अनुगा फूड टेक् के व्यापक फोरम कार्यक्रम में पैकेजिंग एवं कई विस्तृत खाद्य एवं पेय प्रौद्योगिकी का समावेश होगा । यह कार्यक्रम मांस, डेरी, बेकरी एवं पेय उद्योग के अलावा खाद्य उद्योग के अन्य क्षेत्रों में उपयोग लाये जाने वाले नवीनतम तकनीकी पर केंद्रित होगा। इस व्यापार मेले में फोरम प्रोग्राम का मुख्य विषय "संसाधन दक्षता" भी एक विशेष रूप में प्रस्तुत किया जायेगा और दर्शकों के लिए पुरे समय मनोरंजक व्याख्यान कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा । इस के अलावा वर्तमान विषयों पर और एक खास "विषय, प्रचलन एवं तकनीक - खाद्य उद्योग को चलाने वाले" कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे। एक तिहाई विशेष फ़ोरम्स "खाद्य सामग्री" पर समर्पित हैं । इन तकनीकी फोरम में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी जाएगी - स्वचालन, रोबोटिक्स, उद्योग 4.0, मॉड्यूलिजेशन, लचीलापन और अनुकूलन, मेटेनेंस, डिजिटल व्यवसाय मॉडल, अभिनव पैकेजिंग समाधान, विदेशी वस्तु जांच, हाइजीनिक डिजाइन, टेक्सचर डिजाइन, सुधार और जीनोम संपादन।

### **निर्देशित टूर्स**

अनुगा फूड टेक् के दर्शकों को "निर्देशित टूर्स" के दौरान 'संसाधन दक्षता' में महत्वपूर्ण नवाचारों के बारे में तथा अन्य विषयों के बारे में भी संक्षिप्त एवं सूचनाप्रद विवरण प्राप्त होगा। इन "निर्देशित टूर्स" के अंतर्गत कुछ चयनित प्रदर्शक लगभग 10 मिनट के लिए रोबोटिक्स, उद्योग 4.0 , पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, मांस प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी और अभिनव पैकेजिंग सामग्री के लचीलेपन के लिए अभिनव उत्पाद और इष्टतम समाधान प्रस्तुत करेंगे।

**अगला अनुगा फूड टेक् व्यापार मेला 20 से 23 मार्च तक कोलोन में होगा यह व्यापार मेला कोलोन व्यापार मेला एवं डी ऐल जी द्वारा संचालित हैं.**

अधिक जानकारी के लिए : [www.anugafoodtec.com](http://www.anugafoodtec.com)